



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या- 137 राँची, गुरुवार, 3 फाल्गुन, 1939 (श०)
22 फरवरी, 2018 (ई०)

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग,

अधिसूचना

21 फरवरी, 2018 ई०।

संख्या-18/12 आ०सु०(29)07/2009-1096 -- चूँकि राज्य सरकार का विचार है कि झारखण्ड राज्य में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) की गतिविधि लोक व्यवस्था बनाये रखने में हस्तक्षेप करती है और यह कि वह लोक शांति के लिए घातक है ।

अतः अपराध विधि संशोधन अधिनियम, 1908 (The Criminal Law Amendment Act, 1908) (1908 का 14 वा अधिनियम) की धारा 16 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) को उसके गठन की तिथि से अवैध घोषित करती है । इस संगठन के सदस्य बनने, इसे चंदा देने तथा इनकी उग्रवादी निति से संबंधित कोई भी साहित्य या पर्णिका छापने या रखने को गैर कानूनी घोषित किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

बाल किशुन मुण्डा,
सरकार के संयुक्त सचिव ।